



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, जुलाई 25—जुलाई 31, 2004, शनिवार/श्रावण 3—श्रावण 9, 1926
No. 17] NEW DELHI, JULY 25—JULY 31, 2004, SATURDAY/SRAVANA 3—SRAVANA 9, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली, 9 जून, 2004

आ.अ. 41.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 112 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्जी सं० 2/99 में दिये गये झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के तारीख 7-5-2004 के नोटिस को प्रकाशित करता है।

(निर्णय इस अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में छपा है।)

[सं० 82/झारखण्ड/(2/99)/2004]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)—सह-प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 9th June, 2004

O.N. 41.—In pursuance of Section 112 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes Notice dated the 7th May, 2004 of the High Court of Judicature at Jharkhand, Ranchi in Election Petition No. 2 of 1999.

NOTICE

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

(ELECTION JURISDICTION)

NOTICE UNDER SECTION 112 OF THE
REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951**Election Petition No. 2 of 1999**

Rit Lal Prasad Verma

.....Petitioner

Versus

Tilakdhari Prasad Singh and others

.....Respondents

Whereas, it is notified for general information that Rit Lal Prasad Verma, Petitioner in abovementioned case has died on 15-1-2004 and as such in pursuant to Court's Order No. 62 dated 30-4-2004, and as per Section 112 of the Representation of the People Act, 1951, it is notified that,

Any person, who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of publication of this Notice, apply for substitution of his name as petitioner in this case.

Given under my hand and seal of this court, this the 7th day May, 2004.

By Order of the Hon'ble Court,

Joint Registrar (Judicial)

[No. 82/JKD/(2/99)/2004]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2004

आ.अ. 42.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग पॉण्डिचेरी संघ राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्रीमती एम. सथियावथि, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री आर.आई. जयप्रकाश, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी.-87) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पॉण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्वारा नामित करता है।

2. श्री आर.आई. जयप्रकाश, पॉण्डिचेरी संघ राज्य सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री आर.आई. जयप्रकाश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पॉण्डिचेरी संघ राज्य के पद पर कार्य करते हुए पॉण्डिचेरी संघ राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/पांडि./2004-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2004

O.N. 42.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Government of Pondicherry hereby nominates Shri R.I. Jaiprakash, IAS (AGMUT : 87) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Pondicherry with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Smt. M. Sathiyavathy, IAS.

2. Shri R.I. Jaiprakash shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of the Union Territory of Pondicherry, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri R.I. Jaiprakash while functioning as the Chief Electoral Officer, Pondicherry shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of the Union Territory of Pondicherry except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/POND/2004-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.